

AS-676

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :—(1) Attempt ALL questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Explain the organisation of Banking. 4
- (b) Explain the uses of ATM. 4
- (c) Write the importance of Banking Services. 3
- (d) What do you mean by e-Banking ? 3

OR

- (e) Explain in brief the history of Banking. 4
 - (f) What is Debit Card ? 4
 - (g) State the disadvantages of Unit Banking. 3
 - (h) Explain the current trends of banking services in India. 3
2. (a) Explain the functions of Co-operative Bank. 4
 - (b) State the objectives of Regional Rural Bank. 4
 - (c) Explain the concept of Development Bank. 3
 - (d) What do you mean by Co-operative Bank ? 3

OR

- (e) Explain the importance of Co-operative Bank in Economic Development. 4
- (f) State the meaning of Regional Rural Bank. 4
- (g) Explain the functions of Development of Bank. 3
- (h) Explain the role of District Central Co-operative Bank in Agricultural Sector. 3
- 3. (a) Explain the concept of foreign Bank. Discuss the services render by Foreign Banks in India. 14

OR

- (b) State the definition of Commercial Bank. Write in detail the functions of Commercial Bank. 14
- 4. (a) Explain the organization of State Bank of India. 4
- (b) Explain the monetary policy. 4
- (c) State the functions of RBI towards Commercial Bank. 3
- (d) Write the objectives of State Bank of India. 3

OR

- (e) Explain the importance of State Bank of India in Economic Development. 4
- (f) Explain the tools of credit control of RBI. 4
- (g) What do you mean by "Bank Rate" ? 3
- (h) Explain the objectives of Monetary Policy. 3
- 5. (a) Discuss in detail the powers of RBI to regulate Co-operative Banks. 14

OR

- (b) Discuss the main provisions of Banking Regulation Act, 1949. 14

AS-676

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :— (1) सर्व प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) अधिकोषण संघटण स्पष्ट करा. 4
- (ब) ए.टी.एम. (ATM) कार्डचे उपयोग स्पष्ट करा. 4
- (क) अधिकोषण सेवांचे महत्व लिहा. 3
- (ड) ई-बँकींग यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो. 3
- किंवा**
- (इ) अधिकोषणाचा संक्षिप्त इतिहास स्पष्ट करा. 4
- (फ) नावेपत्र (Debit Card) म्हणजे काय ? 4
- (ग) एकल अधिकोषण पद्धतीचे दोष सांगा. 3
- (ह) भारतातील अधिकोषण सेवांमधील वर्तमान प्रवाह स्पष्ट करा. 3
2. (अ) सहकारी अधिकोषाचे कार्य स्पष्ट करा. 4
- (ब) क्षेत्रिय ग्रामीण अधिकोषाची उद्दिष्टे सांगा. 4
- (क) विकास बँकेची संकल्पना स्पष्ट करा. 3
- (ड) सहकारी बँक यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? 3

किंवा

- (इ) आर्थिक विकासात सहकारी अधिकोषाचे महत्व स्पष्ट करा. 4
- (फ) क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकोषाचा अर्थ सांगा. 4
- (ग) विकास अधिकोषाची कार्ये स्पष्ट करा. 3
- (ह) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोषाची कृषी क्षेत्रातील भूमिका स्पष्ट करा. 3
3. (अ) विदेशी अधिकोषाची संकल्पना स्पष्ट करा. विदेशी अधिकोषांद्वारे भारतात दिल्या जाणाऱ्या सेवांची चर्चा करा. 14

किंवा

- (ब) व्यापारी अधिकोषाची व्याख्या सांगा. व्यापारी अधिकोषाची कार्ये सविस्तर स्पष्ट करा. 14
4. (अ) भारतीय स्टेट बँकेचे संघटन स्पष्ट करा. 4
- (ब) मोद्रिक धोरण स्पष्ट करा. 4
- (क) भारतीय रिझर्व बँकेची व्यापारी बँकांसाठी कार्ये स्पष्ट करा. 3
- (ड) स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उद्दिष्टे लिहा. 3

किंवा

- (इ) आर्थिक विकासात स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे महत्व स्पष्ट करा. 4
- (फ) रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे प्रत्यय नियंत्रणाची साधने स्पष्ट करा. 4
- (ग) "अधिकोष दर" यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? 3
- (ह) मोद्रिक धोरणाची उद्दिष्टे स्पष्ट करा. 3
5. (अ) सहकारी अधिकोषाचे नियमन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांची सविस्तर चर्चा करा. 14

किंवा

- (ब) अधिकोषण नियमन अधिनियम 1949 च्या प्रमुख तरतुदींची चर्चा करा. 14

AS-676

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— (1) सभी प्रश्न हल कीजिये।

(2) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

1. (अ) अधिकोषण संघटन स्पष्ट कीजिए। 4
- (ब) ए.टी.एम. (ATM) कार्ड के उपयोग स्पष्ट कीजिए। 4
- (क) बैंक सेवाओं का महत्व लिखिए। 3
- (ड) ई-बैंकिंग से आपको क्या अर्थबोध होता है ? 3

अथवा

- (इ) बैंक का इतिहास संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। 4
 - (फ) नावे पत्र (Debit Card) याने क्या ? 4
 - (ग) एकल बैंक प्रणाली के दोष बताइये। 3
 - (ह) भारत के अधिकोषण सेवाओं की वर्तमान प्रवृत्ति स्पष्ट कीजिए। 3
2. (अ) सहकारी बैंक के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 4
 - (ब) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उद्देश्य बताइये। 4
 - (क) विकास बैंक की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 3
 - (ड) सहकारी बैंक से आपको क्या अर्थबोध होता है ? 3

अथवा

- (इ) आर्थिक विकास में सहकारी बैंक का महत्व स्पष्ट कीजिए। 4
- (फ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अर्थ बताइये। 4
- (ग) विकास बैंक के कार्य स्पष्ट कीजिए। 3
- (ह) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की कृषि क्षेत्र में भूमिका विशद कीजिए। 3
3. (अ) विदेशी बैंक की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। विदेशी बैंकों द्वारा भारत में दी जाने वाली सेवाओं की चर्चा कीजिए। 14

अथवा

- (ब) व्यापारी बैंक की परिभाषा बताइये। व्यापारी बैंक के कार्य विस्तार से स्पष्ट कीजिए। 14
4. (अ) भारतीय स्टेट बैंक का संघटन स्पष्ट कीजिए। 4
- (ब) मुद्रा नीति स्पष्ट कीजिए। 4
- (क) भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापारी बैंकों के लिए किए जाने वाले कार्य स्पष्ट कीजिए। 3
- (ड) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य लिखिए। 3

अथवा

- (इ) आर्थिक विकास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का महत्व स्पष्ट कीजिए। 4
- (फ) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साख नियंत्रण के साधनों को स्पष्ट कीजिए। 4
- (ग) "बैंक रेट" (Bank Rate) इससे आप क्या समझते हैं ? 3
- (ह) मुद्रा नीति के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 3
5. (अ) सहकारी बैंक के नियमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए। 14

अथवा

- (ब) बैंक नियमन अधिनियम 1949 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए। 14